

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)**

क्रमांक: एफ7(286)ग्रावि/अनु-8/MAGPY/2015


जयपुर दिनांक 10 जून 2015

**:: सीमित बोली सूचना संख्या 06 ::**

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में परिवारों, ग्राम पंचायतों, ग्राम के लिये बेसलाईन सर्वे एवं विलेज डवलपमेन्ट प्लान आदि हेतु वेबसाईट/सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना है । अतः वेबसाईट/सॉफ्टवेयर निर्माण डिजाइन फर्मों/एजेन्सियों से निम्नलिखित कार्य हेतु दर बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय	कार्य की अवधि
1	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना हेतु वेबसाईट/सॉफ्टवेयर तैयार करना	2.00 लाख (सभी कर सहित)	17.6.2015 3.00 PM	कार्यादेश दिनांक से 1 माह

शर्त:- बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा । बोली प्रपत्र के साथ IT sector में Software निर्माण कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र तथा वाणिज्य कर विभाग से पंजीयन प्रमाण-पत्र, बिक्रीकर अदेय प्रमाण पत्र व पेन नम्बर प्रस्तुत करना होगा । बोलीदाता को पारदर्शिता अधिनियम 2012 व 2013 का पालन करना होगा ।

  
(गोपाल लाल माथुर) 10/6/15  
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं  
परियोजना निदेशक  
पदेन उप सचिव (एसएपी)

To

Secretary  
Rural Development Department  
Govt of Rajasthan, Secretariat,  
JAIPUR

Sub : Submission of Quotation for Mukhya mantra Adarsh Gram Panchayat Yojana  
Web Portal.

Dear Sir,

With reference to above cited subject, our firm M/s..... is really keen to  
do work of the same.

S. No.	Name of Work	cost of work
1	Development of Software for the Scheme of MAGPY on the basis of SaansadAdarsh Gram Yojana ( Saanjhi.gov.in Under this Title hyperlink to each other will be as follows :	2.00 Lakh (including all taxes)

**PART A**

Home Page  
About MAGPY  
Guidline  
Circular  
Message  
Report  
Media  
Downloads  
Contact us  
Login id & Password – State

**PART B**

Home (Rajasthan Map with district & block map  
Administrator (Change Password, add menu items  
Change Password Option  
Profile (State, District, Block officer )  
Report (Selected GP, contact details & e-mail id – MLAs, District Collectors, CEO, Charge officers,  
)Consolidated BLS report,  
Pending Contact details,  
BLS House hold/Panchayat/ Village detailed Survey Reprot,  
Freez entry report, GP/Village Level BLS House hold summery repot,BLS house hold exception report,  
Village Development plan ( VDP – I,II,  
Department Master Entry, Designation of master entry, sub sector master entry, Scheme master entry  
**Good Practices/IEC report**  
Others

**PART C**

**Forms for Adding ->**

1. Constitutional Area
2. Districts
3. Panchayat Samitis

4. Gram Panchayats
5. MLA Name
6. Block
7. Sector Name
8. Department Name
9. Scheme Name
10. Contact Details for MLA
11. Contact Details for District Collectrates
12. Contact Details for State Nodal Officers
13. Contact Details for STOTs
14. Contact Details for Charging Officers
15. Sub Sector Name
16. Designation

### **Forms for Surveys**

1. Interlinking of Constitutional Area with MLA details i.e. Gram Panchayat, Verified Constitutional Area, MLA Name, District, Block, Gram Panchayat Name, Village etc.
2. Add department -> Department Name/Sector Name.
3. BLS Panchayat Report.
4. House Hold BLS Report.
5. Scheme Details
6. Choose Gram Panchayat by MLA for yojna
7. Good Practise Nomination Detail Submit
8. Surveyor's Details
9. Feedback by Citizen
10. Feedback and interaction by officers of different roles
11. Forms for Village

### **PART D**

#### Reports

1. House hold Detailed Report
2. Report for Gram Panchayat Baseline Survey
3. BLS Village Detailed Report
4. Identified/Non Identified Gram Panchayats by MLAs
5. Good Practice Nomination
6. Detailed report of Gram Panchayats
7. BLS Panchayat Details Reports
8. House hold Summery Report
9. Consolidated report for Gram Panchayat Baseline surveys
10. Admin report for monitoring
11. Login details by different roles and their activities day by day and action by action
12. Any other report desired by department (to be fixed before initiation of the development phase)

**Roles**

1. Surveyor (Field Worker)
2. Nodal Officer (Proof Reading officer)
3. Executer Role (Collectors)
4. MLA
5. Super Admin (Department)

**PART E**

Creation of Department & Responsibility of Officers.

In words I/We here by agreed to do above said work ..... Above/below

**Signature of the firm**  
**Name & Address**  
**With mobile & e-mail id**